

Brahmaputra Infrastructure Ltd.

Ref: Company Scrip Code: 535693

Dated: 23.09.2021

Τo,

The Bombay Stock Exchange Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower, 1st Floor Dalal Street, Mumbai - 400001

Dear Sir,

Subject : Key financial Highlights of June-21 Quarter Results.

Following are the key financial highlights of the un-audited financial results for the quarter end June 30, 2021 announced on September 22, 2021.

We are enclosing a copy of newspaper in those results of June-21 Quarter are published.

We request you to take the note of the same.

Thanking You

For Brahmaputra Infrastructure Limited

Raktim Acharjee Whole Time Director Din : 06722166

Registered Office: Brahmaputra House, A-7, Mahipalpur (NH 8-Mahipalpur Crossing), New Delhi-110037 Phones: 91-11-42290200 (50 Lines) Fax: 91-11-41687880, 26787068 E-mail: delhi@brahmaputragroup.com web: <u>www.brahmaputragroup.com</u> CIN:L55204DL1998PLC095933



Brahmaputra Infrastructure Limited

Announces Unaudited Financial Results for Quarter Ended 30.06.2021

New Delhi, 22nd September 2021 : Brahmaputra Infrastructure announced its un-audited standalone and consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2021 on 22nd September 2021.

Standalone financials at a glance (figures in INR Lacs):

Description	Q1FY 22	Q1FY 21	Increase/
			Decrease in
			Percentage
Revenue from operations	2,532.40	1,976.29	28.13 % Increase
Total Income	2,809.34	2,030.78	38.33 % Increase
Profit before tax before	124.40	65.07	91.17 % Increase
exceptional item			
EPS	0.45	(1.50)	

Consolidated financials at a glance (figures in INR Lacs):

Description	Q1FY 22	Q1FY 21	Increase/
			Decrease in
			Percentage
Revenue from operations	2,532.40	1,976.29	28.13 % Increase
Total Income	2,809.34	2,030.78	38.33 % Increase
Profit before tax before	123.73	63.12	96.02 % Increase
exceptional item			
EPS	0.43	(1.54)	

All of the above figures as based on IND AS

Notes :

1. Work-in-progress (Inventories), Trade receivables, Retention/withheld by clients Receivables amounting to ₹ 215.12 crore, ₹ 94.41 crore, ₹ 45.67 Crore respectively, as at 30 June 2021, which represent various claims raised in the earlier years in respect of projects substantially closed and where the claims are currently under negotiation//s / discussions / arbitration / litigation. Based on legal opinion / past experience with respect to such claims, management is of the view that the aforementioned majority of the balances are fully recoverable.

Your company is under continuous process to recover the above receivables from the concern department/ customers which make possible to improve the fund flow of the company and helpful in further expansion.

Your company has maintaining a strong order book with good margins, we are in under process for bidding the new tenders on PAN India basis to build the order book size further.

- 2. Company (M/s Brahmaputra Infrastructure Limited) is in continuous process for Debt reduction of the company, in last FY 2020-21 Company already successfully implemented two OTS with Consortium of lenders (HDFC Bank & State Bank of India), Now Both the lenders are no more part of Consortium of lenders. Your company is in under process to settle the fund based exposure with (Axis Bank).
- 3. At the end of quarter 30th June 2021 your company have an net worth of an total amount Rs. 140.61 Crore.
- 4. At the end of quarter 30th June 2021 your company have an o/s recoverable in form of Income tax refunds, sale tax refunds and other misc. refund of an total amount ₹ 23.65 Crore. We are in under continuous process to recover the respective outstanding refunds from concern departments.

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021

25

FORM No. IN	IC-26				From No. F	1	D	MAND NO	TICE		
[Pursuant to Rule 30 the Companies nge of Registered Office of DOCASAP INDI from "National Capital Territory of Del	(Incorporation) Rules, 2 IA TECHNOLOGIES PF Ihi'' to the "State of Tel	RIVATE LIMITE langana"		Form No.5 DEBTS RECOVERY TRIBUNAL 600/1, University Road, Hanuman Setu Mandir, Lucknow			Liber Sector 13(2) of the Sectorisation And Reconstruction of Financia Assets that Effectivement of Sector 1 with final 2 (1) of the Sectorisation And Reconstruction of Financia Assets that Of Effectivement of Sector 1 with final 2 (1) of the Sectorisation Asset Sectorisation Assets and Sectorisation and Sectorisat				
efore the Central Government, Hon'ble F a matter of sub-section (4) of Section 13 of ule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorpo	Companies Act, 2013		tot 10	(Area of Jurisdiction, Part of Uttar Pradesh and Uttarakhand) SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION			payment. The detail of the Borocaet(s), amount do as an offste of Benard Notice and security offered towards repayment of han amount Meres of the Borocaet(s) of Borenande (Notice: Date and Amount). [Description of securid size allowed Mer. Mohol Ajaz, Mer. Shahnam, Rupes: Three Laki Tuenty's Thousand Sh. Hundred Constructed On Pite Mob. Row Shahnam,				
AND In the matter of DOCASAP INDIATECH gits registered office at House No 13, Street Defini-110031, India.	No 11, 2 rd Floor, Gesta (Colony, New De	Re	covery of D	Date: 15.09.2021 fendants under Section 19(3) of The ebts due to Banks and Financial	Ethacair	htd (http://time.chr/) Pro- text No. 925325, 797171) (http://time.chr/) Pro- licores states nake payment to IFI HFI as afresaid opticable Rules, codit and oneso, 14, 1017, Tenh Floor, Cyleer Heighs, TC 22 and TC 55, 1979 Var. All asself Counserns, Tairprone page; LULAN		n and the she	-Incode: 226001,1	under Pracesn
U7290001 2019FTC357963 e is hereby given to the General Public that t sation to the Central Government under Secti mation of alteration of the Memorandum of A	he Petitioner Company on 13 of the Companies	Act, 2013, seek	ike De	Institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of th Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Original Application No. 113 of 2019 Bank of Baroda Vs. M/s Kuldeep Rice Mill & Ann			IST CIN: L0300	LIMITED	316		
tal Hesolution passed at the Evitra Ordinary (a on September 10, 2021 to enable the Petitione the National Capital Territory of Delhi to the est is likely to be affected by the proposed chan	Seneral Meeting of the Pa ar Company to change its e State of Telangana. A	letitioner Compa s Registered Off Any person who	iny 1.1 ine i ise i	at Vill. Sarai Raebareli, U.F			Notice is hereby given that following Share c	Floor, Defence I LIC NOTICE etificates are stall	Colony, New D	eihi - 110024 1 lost/misplaced	
deliver either on the MCA-21 portal (www.m nuco to be delivered or cend by registered p avit stating the nature of his/her interest and gro ctor, Northern Hegion, Delhi at 22.09.2021th	ca.gov.in) by filing invest oct of hic/hor objections ounds of opposition to the e address H-2 wing, 2 ^{re}	tor complaint fo s supported by e Hon'ble Regio Floor, Paryava	rm an nal ran req	 Kuldeep Singh, Sio Gri Maharaj Dahadur Gingh, Rio Vill, Sana Shree Bux, Pear Kawalpun, Baretha, Rasharali, U.P. Desterming Singham Singhalang yau are been been been of the probability of the singhalang along with documents and affidavits (if any) personally or through your duily authorized agent or legal prototioner in this Tribunal, after serving coxy of the same on the applicant or its consell-duily authorised 			the registered shareholder rad applied to the Company for duplicate share centricale. Folio Name of the Shareholder Share Distinctive numbers No. of No. Certricate No. From To Shares Share Shares				
wan, CGO Complex, New Delhi-110003, Delhi, is Notice with a copy to the Petitioner Compa tioned below: jstered office address:House No 13, Street N	any at its Registered Off	lice at the addre	ess or pra				Public is henceforth cautioned against deall Any person(s) who has/have any claim in re claim(s) with the Company within 15 days entertained. Thereafter, the Company will p contificate chall stand cancelled.	spect of the said from this publication	share certificati tion, after whic	e should lodge : h no claim sha	such I be ginal
h Delhi • 110031, India.		or and on behal	to a	agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 02.02.2022 at 10:30 A.M. Failing which the application shall be heard and decided in your absence.			Place : New Delhi Date : 21 89 2821				so- mar
			ari 🤇	Court Seal Debts Recovery Tribunal, Lucknow				onletted under Sect	f the Security in on 13(12) of thes	Renest (Enforcen aid Actreact with R	ient) blie3
e: New Delhi : 22.00.2021		DIN: 068815	507			1	Infoline House, Howardsteed Neuron and Ce- Infoline Housing Finance Ltd.) hasissued Dem the Borower(s), to repay the amount meritions connection with above, notice is hereby given, on publication of this notice, the amounts indicated in Demand Notice II the date of payment. The date Notice Ia. 20-Sect-202 Tand security offered I	nd Notices under se d in the respective a again, to the Dor rein below, togethe I of the Borrowar(s)	action 13(2) of the Demand Notice rower(a) to pey v rwithfurther inte , amount due ar	e said Act, calling (s) issued to the rithin 60 days from rest from the date a on date of Dem	upon n. In n the (s) of
TO BE BANK Branch Ac 1.65190MH2004G01148838 PUBLIC NOTICE FOR A re are invited for the public auction of the ga	KG MARG, WCTION OF GO old ornamento, pledgeo	9, Ground Flo New Delhi 11 DEDEORAN	ior, Surya K UUU1 AMISNUS Io Bank, for f	iran Building,	PUBLIC NOTICE Public at large is hereby informed on behall of my client CAPARO FINANCIAL SOLUTIONS LIMITED (CFSL), a company registered under provisions of Company Act 1950, herring ils office at 1007-1010, 10 ^o		Note the set of prevail this section which it is the section of the Name of the Date and Mr. Bankart Gool, Mrs. 20-Sept B is h a n a D e v i Rs. 7,16,991- (Ru (Prospect No.807831) Sideen Thousand N Une Chriy	Notice Amount -2021 ees Seven Lak	Descriptio (immo Al that per property bein Block D, area Ft, Vasundha	n of secured ass vable property) ce and parcer o g : Flat No. E-D/ Admeasuring 35 ra Kutumb, Biwa H	11 UT 18 37 28 37 39 4 19
overing the dues owed by the Dorrower(s) 6 00 P.M onwards in the Bank's premises at KG		d below. The a	EMD In	Reserve	Floor, Kalash Duilding, 26 Kasturba Gandh Marg, New Delhi -110001, e-mail: <u>dheeral.vashisht@caparofinancial.com</u> Phone: 011-43251111, that some		Tithe said Borrowers fail to make payment to TFL HFL access under Oection 10(4) of the seid Act, and the ep	as aforesaid, IFLHF	302022, Raja mayoroceed ac	and the above set	3050
Account No. Name of the Borrower & Addres 0011071100001274 RAJENDRA SING	hisađisa	weightin Grams 5.00	EMD III Rs. 17181/-	price in Rs. 23000/-	unscrupulous persons, with ulterior motive to earn wrongful gain and/or to cheat and/or mislead companies/individuals who are		the Borrowers, For, further details please contact to A 46-B. Offices No. 307 To 312, Malan Ka Chauraha, A for Corporate Office : IIFL Tower, Plot No. 96, Phase	thorised Officer at Br rasen Circle, Subha V, Udyog Vihar, Gurg	anch Office : Am sh Marg, C-Scher aon, Haryana.	biton Tower, Ploth ne, Jaipur - 30200	ko. D- 1 and
BISHT auction shall be subject to the terms and cor					desirous of taking loan, are misrepresenting themselves as CFSL. These persons		Date: 23-Sept-2021 Place: Jaipur	SdV Authorse	d Othoer Hor IIHL	Home Finance Lin	inted
isplayed in the notice board of KG Marg refer the same. A bidder participati	Branch from 15.09.20 ing in the auction shall	121 to 30.09.20 be deemed to	21 and inter have full kno	ested parties	misrepresent themselves to be association/affiliation by using CFSL's name, trademark, and domain name etc. A	15			(NH-8 Cross		hi-110 037
said terms and conditions of sale. Last date s: KG Marg	of submission of the Bi		Auth	SD/- orized Officer Marg Branch.	police complaint has already been lodged on 03.08.2021 with Barakhamba Road Police Station, New Delhi.	Un-A	Audited Standalone Financial Re		e Quarter	(Rs. In La	kh except EPS)
22.00.2021			,	-	CFSL is dealing and handling its affairs from		S267 (B.S 40)		Quarter end	ho	Year ended
: 22.00.2021					its offices at Delhi and Mumbai only and has	\$1.	Particulars	30-Jun-21	31-Mar-21	30.Jun-20	31-Mar-21
	DEMAND NOTICE				no other place of work. Genuineness of a transaction can	SI. No.		Reviewed	31-Mar-21 Audited	30-Jun-20 Reviewed	31-Mar-21 Audited
er Sarrison 13(7) of the Samuritization and Resource of et	DEMAND NOTICE	Enforcement of Se	curity interestA	ct. 2002 (the said	no other place of work. Genuineness of a transaction can be verified at Phone: 011-43251111.	\$1. No.	Particulars Iotal Income from operations (net) Total Expenses		31-Mar-21 Audited	30.Jun-20	31-Mar-21
22.00.2021 er Section 13(2) of the Securification And Reconstruct y read with Rule 3 (1) of the Security Internet) (Enforce tion 13(1) of the said Act read with Rule 3 of the said are is inclus informer Rugaine Flatmence (Ld). The sit	Sen of Financial Assets And E cement) Rules, 2002 (the se I Rules, the Authorised Offici	aid Rules). In exer ter of IIFL Home Fi	cise of powers nance Ltd.(IIFL	conferred under HFL) (Formerly	no other place of work. Genuineness of a transaction can	si. No. 1 2 3	lotal income from operations (net)	Reviewed 2,809.34 2,684.94	31-Mar-21 Audited 9,289.72 7,955.91	30-Jun-20 Reviewed 2,030.78	31-Mar-21 Audited 16,288.85

Name of the Borrower(s).	Demand Notice		red asset (immovable property)	
/Guarantor (s) Mr. Vijay Kumar, Mr. Balcam Manjhi, Mrs. Meena Devi	Date & Amount 20.Sep-2021 Rs 5 58 374/- (Rupers Five Lakh Fifty Eight Thousand	All that piece and parcel of the property being: Mustakii Na 86 Kila No 1502 (1-19) 16(2-10) 17(8-, 18/1 6-13 Total 19 Kanal 2 Marie , Area Admeasuring 60 Sq. Yards., Waka Mauja Tipat		
(Prospect No. 827702)	Three Hundred Sevenity Four Only)	Waka Moja , Faridabad, F	Falidabad, 121003, Haryana, India	
Mr. Rahul, Mrs. Munni Dovi, Mr. Sohanvir (Prospect No. 785272)	20.Sap.2021 Rc 11,75,659/- (Rupees Eleven Lakh Seventy Pire Thousand Six Hundred Fifty Nine Only)	-3 -12A03, 13th Floor, at	il of the property heing : Apot No. Sun real measuring 875 sq.ft., (super built Khatira No.54/51, Rajnagar Extr., 1017, Uttar Pradesh	
Mr. Vijender Singh, Mrs. Dava Rani, Mrs. Murti Devi (Prospect No. 843776)	20-Sep-2021 Rs. 25,94,528/- (Rupees Twenty Five Lakh Ninety Four Thousand Five Hundred Twenty Eight Only)	Bearing No N-9111, adm	rcel of the property being : Property reasuring 183 Sq. yards, Kh No 1 e Ghonda Chauhan Banger, Braham lethi, India	
Varun Variety Store, Mrs. Arijali Aggarwal, Mr. Devender Aggarwal, Mrs. Kamlesh Aggarwal, Mr. Viney Aggarwal (Prospect No. 840874)	20-Sep-2021 Rs. 16,82,850/- (Rupeus Sixteen Lakh Eighty Two Thousand Eight Hundred Filty Only)	measuring 50 sq yrds. V	rosi of the property being : Property Hage Bhangel Begumpur . Pargana agar, Nolda, Pincoda 201364, Ultar	
Mr. Raj Kumar Gupta, Mrs. Meena, Mr. Sunii (Prospect No. 841049 & 941044)	20-Sep-2021 Prospect No. 841049 Rs. 6,23,451/ (Rupres 3): Lohi Twenty Nine Thousand Four Hunded Eight Ose Only Prespect No. 941064 Rs. 55,832/- (Rupres Fifty Fixe Thousand Eight Hundred Thrity Two Only)	Back Side Without Roof Property Bearing No D-	tol of the property being ; 2Nd Floor / Rights, admessuring 25 Sq. yerds, 99 Old No D-122. Kh No 193/3 Min. lage: Khidwigur Shahdra, Pincode:	
Mr. Manish Kumar. Mrs. Shwata Priya, Mr. Anand Kumar (Prospect No. 824083)	20-Sep-2021 Rs. 38.28.509/- Ruppes Thify Eight Lakh Twenty Eight Thousand Five Hundred Nine Only)	without roof rights, Out of E measuring 86 sq ytds, Pa	of the property being : Entire First Floot. Sult Uo Property Bearing No R2-163/2, et of Khasra No 491, Village Nasirpur, agar-II, Palam Colony, Naw Delhi	
Mr. Bhai Singh, Mrs. Niharika Rani (Prospect No. 816737)	20-Sep-2021 Rs. 14,38,397/- Rupees Fourteen Lakh Thirty Eight Thousand Three Hundred Ninety Seven Crity)	All that piece and parce 504, admeasuring 553 Gurgaon, 5Th Floor, Pinc	el of the property being : Unoit No-A8- 383 Sq. ft. , Solera 2, Sec-107 code: 122001, Haryana, India	
Mrs. Suparna Haldar, Mr. Sanjeev Haldar, Suparna General Store, Subtankar Halder (Prospect No. 948597)	21-Sep-2021 Rs. 8,60,828/- (Rupers Eight Lakh Soty Thousand Eight Hundred Twenty Eight Only)	All that piece and parcel of the property being - 3Rd Floor, With Roof Rights Property No-121, measuring 50 sq yds Kh No-2224/2 New Lafture Strasbi Nagar, Vilage Khureji Kilas Shahdam, Dehi, 110031, Dehi Judia		
Mr. Vikram Yadav, Mrs. Anuracha Yadav, Mrs. Rachma Yadav (Prospect No. 948361, 958611)	21-Sep-2021 Prospect No. 948361 Rs. 29,27,3514 (Rupers Teensy Nine Lakh Twenty Seven Thousand Tross Hundrod Fifty One Only Prospect No. 950611 Rs. 1,07,8511 (Rupoes One Lakh Seven Thousand Six Hundred And Fifty Seven Only)	B-105, measuring 450 sr Min Village Khajoori Kha Khajoori Khao, Illaga, Sh	tel of the property being : Property No g. R., Old No., 10490 Khaara No 9011 is In The Abadi Of 8 Block Gali No 11 ahdew, Delhi, 110004, India	
of the borrowers, For, further de Floor, Main Shivaji Marg, Najal Neido, Gautam Budh Nogar 2	b make payment to IIFL HFL as T3(4) of the said Act, and the appl table please contot to Authorised Offic garm Road. Beside Jaguar Shownoom. 1501, Office Ne 1, First Floor, Nehnstul rate Office: IIFL Tower, Pict No. 98, Udys d Date: 23 40 2021	er al branch Office: II-L H Moti Nagar, New Deihi, A- imi Motro Towor, Plot No. C g Vihar, Ph-IV Gargaon, Ha	FL Plot No. Surgite, Upper Ground 10 & A+1D, 2nd floor, Notda Sec16. 2 1,Sector - 1, Vaishali, Ghaziabad,	
with Rule 3 (1) of the Security II Au, read with Rule 3 of the said Finance I tril) has issued Deman respective Demand Notice(s) issu from the publication of this notice	rhishion And Reconstruction of Financia teersist (Enforcement) Rules, 2002 (the Rules, Une Autorubed Officer of 11th, th I Mattives under sertion 13(2) of the ex- ed to them. In connection with above, , the amounts indicated herdin below, b	said Rules). In exercise of ane finance Ltd. (IIFL HFL in Art, calling upon the Ru notice shereby given, one coether with further interest	of Security Interest Act, 2002 (the said Act powers conferred under Section 13(12) of the () (numerity known as India India India India engage, to the Borrower(s) to pay within 6 if from the date(s) of Demand Natike till there d Invarits regrighter of tolan amount are as to	
name of the borrower (s) Guarantor (s)	(Liemand Notice Late and a	mount	(Description of second asset (Interpreting)	
Mr. Abhiney Kumar, Mrs. Anuradha, (Prospect No. 789017)	Iwenty Light Thousand Hiteen	17-SEP-2021 Rs.12,28,015/- (Rupces Twelve Lakh All Iwenty Light Thousand Hitteen Univ) Ar M Ki		
Mr. Sachin Yadav, Mrs. Radha Yadav (Prospect No. 781144)	Khasra No 5/4/51, Ghaztabad Pincode: 2010 16-SEP-2021 Rs.22,29,934/- (Rupees Twenty Two Lakh Twenty Kine Thousand Kine Hundred Thirty Four (Ni)			

	themselves as CFSL. These
pulated by the Bank, a copy of which shall 2021 to 30.09.2021 and interested parties	misrepresent themselves
Il be deemed to have full knowledge of the	association/affiliation by using name, trademark, and domain na
Bid is 30.09.2021.	police complaint has already been
SD/-	03.08.2021 with Barakhamba Ro
Authorized Officer IDBI Bank, KG Marg Branch.	Station, New Delhi. UFSL is dealing and handling its al
	its offices at Delhi and Mumbai onl no other place of work.
	Genuineness of a transact be verified at Phone: 011-4
d Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said seld Rules). In exercise of powers conferred under ficer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly	dheerai.vashisht@caparofinancial Our Client shall not be responsible
nder section 13(2) of the said Act, calling upon the	transaction done by anyone w
issued to them. In connection with above, notice is on of this notice, the amounts indicated herein kelow,	unscruptuos persons.
tent. The detail of theBorrower(s), amount due as on s under-	Any Inquiry information relating the be referred to the following:
ption of secured asset (immovable property)	JANENDER KUMAR CHUMBAK (
eeee end parcel of the property being: Mustakii Na o 15/2 (1-19) 16(2-10) 17(8, -18) 16-13 Total 19/Kanal Area Admeasuring 60 Sq. Yards., Wake Mauja Tiipat, iga, Fandsbad, Fandsbad, 121003, Haryana, Initia	Off.: 5, Siri Fort Road, (LGF), Dell Ph: 01126267410, 011 Email: janender@ald
iaco and parral of the property heing "Appt No. Sun 33, 13th Floor, area measuring 875 sq.ft., (super built Migsun Roof, Khakra No.54/51, Rajnagar Extn., ad, Pincode: 201017, Utar Pradesh	
piece and parcel of the property being : Property No N-9/11, admossuring 183 Sq. yards, Kh No 1 Iali No 14 Village Ghonda Chauhan Banger, Braham code: 1100/33, Uehti, India	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया A Where as, the undersigned
piece and parcel of the property being : Property ig 50 sq yrds, Yillege Bhangel Begumpur . Pargens autan Budh Nagar, Norda, Pincode 201304, Ultar India	Financial Assets and Enforce read with rule 3 of the Securi repay the amount mentioned the amount, notice is hereby property described herein be
piece and parcel of the property being ; 2Nd Floor le Wilhout Ruof Rights, admessuring 25 3q, yards, Bearing No D-99 Old No D-122, Kh No 15333 Mm. od Negar, Village Khichvigur Shahéra, Pincede: Dehl, India	the dates mentioned agains respect of time available, to coutioned not to deal with the Kashipur Branch for the am
10000000	8 Name of the Branch & B
ece and parcel of the property being : Entire First Floor, of rights, Out of Built Uo Property Bearing No R2-16922, g 85 sq. yrds, Part of Khasra No 491, Village Nastrpur, rown as Sadh Nagar-II, Palam Colony, Naw Deihi	 Branch: Kashipur Borrower, Mrs. Omwati Ke Sh. Shyam Lai Kashyap, Pant Enclave, Girital R Durani Angi Mandi, Kashipu
iece and parcel of the property being : Unoit No-A8- measuring 553.383 Sq. ft Seleta 2, Sec-107 .5Th Floor, Pincode: 122001, Haryana, India	Negar (UK).
arter boo, Patabase, raadoo r, rue yarte, trate	2. Branch, Kashipur
piece and parcel of the property being : 3Rd Floor, of Rights Property No-121, measuring 50 sq yds Kh i/2 New Lahore Stinstin Nagar, Village Khureji Klias a, Dehh, 110031, Dehti, helia	Borrower: Mr. Akshay Kash Shyam Lal Kashyap, H.No. Enclave, Girital Road, Kashi U.S. Nagar (UK). Co-Boord
1.944 TO COMPACT DOM:	Pooja Joshi W/o Mr. Akehay
piece and parcel of the property being : Property No reasuring 400 sq. ft., Ord No. 104916 Khasra No 90 i se Khajoori Khas in The Abadi Of 8 Block Gali No 11	H.No. 05. Pant Enclave, Gir Kashipur, Distt- U.S. Nagar
Khoo, Illaga, Shahdava, Dalhi, 110094, India	 Branch: Kashipur Borrower: Mr. Akshav Kashv Shyam Lal Kashyap, H.No. I Enclave, Gintal Road, Kashi
I, IIPL, HPL may proceed against the above is entirely at the risks, costs and consequences in Office: IIPL HPL Plot No. 30/30E, Upper Ground	U.S. Nagar (UK)- 244713. Ce 1. Mrs. Pooja Joshi W/o Mr.
h Office: IFL HFL Plot No. 30/30E, Upper Ground r, New Dehi, A-1C & A-1D, 2nd floor, Noida Sec16.	Kashyap, H.No. 05, Pant Er Gintal Road, Kashipur, Distt-

	umbers No.	Distinctive n	Share			Folio	
	To Shar	From	Certificate No.	Sitarenoider	Name of the	NO.	
	3525730 7	3525656	59234-36	anghvi / ghvi	Chandrika S S Shatilal P San	5086	
				utioned against dealing			
				s/have any claim in resp pany within 15 days fr			
Inal	ate and the orig			r, the Company will pro	ained. Thereafte	enterta	
ited	For IST Limit			ancelled.	ato shall stand o		
nar	Bhupinder Kun Company Socret	-			: New Delhi 21 89 2821	Place Date :	
ient) ule3 ndia upon n. In n the stat	erest (Enforcem idActread with Ri- only known as in said Act, calling u s) issued to them thin 60 days from thin 60 days from the date(s) on date of Dem	the Security Int n 13(12) of the sa FL HFL) (Form tion 13(2) of the lemand Notice(wor(s) to pay w with further inten amount due se	(II) Rule 3 (1) of lense under Sectin e Finance Ltd. (II I Notices under sec In the respective I again, to the Darro again, to the Darro n below, together I be Borrower(c).	he Securitisation And Ro 02 (the solid Aut), read to 01 Inexensed provession orised Officer of IIFL Horn a Lud), has issued Deman y the amount mentioned kike is hereby given, once he amounts indicated here is of payment. The detail of and security offered two	y Interest Act, 20 002 (the said Rules aid Rules, the Auth Housing Finano rower(s), to repa- tion with above, no ion of this notice. It d Notice till the dat	Securit Rules, 2 of the so Infoline the Bo connect publicat Domain	
et	of secured assi able property)	Description	otice	Demand N Date and A	tame of the In(s) / Guarantor(s)		
228	e and parcel of Flat No. E-D/G dmeasuring 350 aKutumb, Biwa K	All that piece property being Block D, area	021 Is Seven Lakh	20-Sept-2 Rs. 7,16,991/- (Rupe Sixteen Thousand Nine Une Unly)	nwariGopi.Mrs. an a Devi ectNo.807831)	Mr. Bar Bish	
alan		Turk Road, Nes					
alar dpur, cool c. D- land	han, India. Inst The above sect and consequence from Towart Dict No.	et the riska, costs nch Office : Amb 1 Marg, C-Scherr 3n, Haryana.	ablo Rulea, ontiroly srised Officer at Bra sen Circle, Subhas Jdyog Vihar, Gurga	exepsymentic IFEHFLas of the solid Act and the appli letals please contact to Auf- 2. Malan Ka Chauraha. App ower, PlotNo. 68, Phase IV, Place: Jaipur	nder Oection 13(4)	the Born 46-B. Of for Corp	
alar tiput card card card card inted his110 02	hen, India. Institue above seed and consequences (in Tower Piol Ne e. Jaipur - 302001 ome Finance Limi mited ng). New Delfi- Inded Jun	nayproceed aga of the risks, cools neh Office Ami Mang, C.Scherr Mang, C.Scherr Mang, C.Scherr Mang, C.Scherr Mang, C.Scherr Mang, C.Scherr Turre Li NH-8 Crossi 33	able Roles, en tirely rised Officer al Bra sen Circle. Subhael Jdyog Vhar, Gurga Sdl-Authorised Frastruc Mahipalpur (1998PLC0956	of the seici Act, and the appli letails please contact to Aufr 2, Malan Ka Chauraha, App bwer, PlotNo. 98, Phase IV,	nder Gezkien 13(4) owers. For furthero fress No. 307 To 31 orate Office : IIFL1 23-Sept-2021 Brahu egd. Off.: Brah	ossets a the Born 468.01 (crCopp Date: 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
alar tiput cool co D land hi-110 0: th excep	hen, India. Inst the store second if on Tower, Piol No. e. Japur - 302001 onne Finance Limi mited ng). New Delf inded Jun (Rs. In Lak	nayproceed aga of the risks, cools neh Office Ami Mang, C.Scherr Mang, C.Scherr Mang, C.Scherr Mang, C.Scherr Mang, C.Scherr Mang, C.Scherr Turre Li NH-8 Crossi 33	ebb Dudes, or titely insert Officer at Bra- sen Ointe Subhasi Lidyog Vhar, Gurga Sidk Authorised frastrucc , Mahipalpur (1998 PL C0959 ults for the	of the selicities and the application below presence interfactor 2. Malan Ka Chauraha Agro Swee Pictivo, 88, Proze IV, Place: Jaipur Thaputra Inn Imaputra Housie, A. CIN : L55204D	nder Gazkin 1947 wers. For, linther Tress No. 307 To 31 Sorato Office : IFL 1 23-Sept-2021 Brahu Brahu Brahu Standalon	essets u the Born 46.8.0 (or Corp Date: : Re Audited	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
alar ipus o.D land ited 6 30, 2 th excep <u>Year er</u> 31.Ma	hen, India Inst the above seed ifor Tower PortNo e. Japur- 302001 ome Finance Limi mited ng). New Delif indect Junn (Rs. In Lak d 30Junn-20	nayproceed aga of the ricks, costs, inch Office: Anni Mary, C.Scherr ar, Haryona, Officer For IIFL H ture Li NH-8 Crossii 33 Quarter E Quarter ende 31.Mar-21	able Dudes, or tiely insed Officer at Bra- sen Circle: Subhasi Lidyog Viter, Gurge Sdk- Authorised Frastrucc , Mahipalpur (1998PLC0956 ults for the 30-Jun-21	of the selicities and the application below presence interfactor 2. Malan Ka Chauraha Agro Swee Pictivo, 88, Proze IV, Place: Jaipur Thaputra Inn Imaputra Housie, A. CIN : L55204D	nder Gazkin 1947 wers. For, linther Tress No. 307 To 31 Sorato Office : IFL 1 23-Sept-2021 Brahu Brahu Brahu Standalon	ossets a the Born 468.01 (crCopp Date: 1	Un-
alar abuu a D a D and ited hi-110 0 e 30, 2 ch excep Year e 31.Ma Audi	han, India Inst The above seed and consequences from Tower, PoliNie e, Japur - 3202011 mited mited ng). New Delf mided Junn (Re. In Lak d 30Lunn-20 Reviewed	nayproceed age of her has, costs in A for the second of the second May 0. Scherer May 0. Scherer The second of the second the second of the second the second of the second second of the second of th	ebb Rube, or tiely rised Office at Bra- sen Circle, Subheal Jolyog Vhar, Gurga Salk Authorised Frastrucc Mahipalpur (1998 PL C0959 uits for the 30-Jun-21 Reviewed	of fusel/Act and the application biologic procession of the application Main Kachausha Ago Weep Robb Ago Rhane W. Place: Japur maputra House, As- CIN : L55204D o Financial Ros	nder Gazkien 19/19 owens. For (unter Tress No. 307 To 31 orecte Office: 19/19 23-Sept-2021 Brahu egd. Off.: Brah Standalon lars	Seebu tin Born 458 Of ArCorp Date: Ra Audited Particu	SI. No.
alar abuu a D a D and ited e 30. th excep Year e 31.M: Audi 16,28	ten, India Institute advorte sector from Towne (Foll New Construction of Construction from Towne (Foll New Construction) on Finance Unit on Finance Unit indeed June (Re. In Lak d 30. Jun. 20 Reviewed 2,030. 78	nayproceed age of the risks, costs and bottles. And Marg. O Scher m, Haryena Officer For IR. H ture Li NH-8. Crossi 33 Quarter El Quarter ende 3. Audrited 9,289.72	ethic Rules, or tiely rised Officer at Bra- sen Circle, Subheal Jolyog Vhar, Gurga Sal- Authorised Frastrucc , Mahipalpur (1998 PL C0959 ults for the 30-Jun-21 Reviewed 2,809.34	of fusel/Act and the application biologic procession of the application Main Kachausha Ago Weep Robb Ago Rhane W. Place: Japur maputra House, As- CIN : L55204D o Financial Ros	nder Gazkion 19/19 owens. Foc, University Tess No. 307 To 31 orrato Office: IFL-1 22-Sept-2021 Brahu egd. Off.: Brah Standalon lars me from operat	essebu the Born 46B Of forCorp Date: Re Audited Particu Total Incor	Un- si. No. 1
alar abuu a D a D and ited e 30. th excep Year e 31.M: Audi 16,280 15,790	hen, India Inst the above sector inst the above sector inst the above sector inst consequences inst con	nayproceed age of her sky, costs and former and the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the cost of the co	ebb Rubes, or tiely rised Officer at Bra- sen Circle, Subhasi Sdk. Authorised Frastrucc Mahipalpur (1998PLC0956 ults for the 30-Jun-21 Reviewed 2,809.34 2,584.94	of the workshall and the comparison of the workshall and the comparison of the compa	nder Gazkin 13(4) www.s. For, further Tress No. 307 To 31 Tress No. 307 To 31 23-Sept-2021 Brahu egd. Off.: Brah Standalon lars me from operationses	Randon Contraction	SI. No. 1 2
alar abut soo aso aso aso aso aso aso aso	hen, holia inst he store store inst inst he store store inst inst he store inst inst here inst here inst here inst inst here inst here inst here inst here inst inst here inst here inst inst here inst here inst inst here inst	nayproceed age of her isks, cosk net Marg C Scherr Marg C Scherr Turne Li NH-8 Crossi 33 Quarter Ed 31.Mar-21 Audited 9,289.72 7,955.91 1,333.81	edde Dubes, or tiely reserved Ofter at Bra- serv Circle, Subhasi Sdl- Authorised Frastrucc Mahipalpur (1993PLC0955 uits for the 30.Jun-21 Reviewed 2,809.34 2,684.94 124.40	of fusel/Act and the application biologic procession of the application Main Kachausha Ago Weep Robb Ago Rhane W. Place: Japur maputra House, As- CIN : L55204D o Financial Ros	nder Gazkon 19(%) www. Froc furtherer Tress No. 307 To 31 23-Sept-2021 Brahu egri. Off.: Brah Standalon lars me from operat messes b) before except	Research and a second and a sec	si. No. 1 2 3
(ar) unov unov ard ited ited 6 30. 1 4 arcsport 1 4 arcsport 1 5 arcs 1 5 arcs 1	hen, holia inst he story sector inst for Source Source inst for Source Source inst Construction inst Construction inst Construction (Rs. In Lak d 2,030, 78 1,965,71 65,07 501,60	nayproceed age of the risk, costs and for the second of the risk, costs and the second of the second of the Marg C Scherr, and the Marg C Scherr, and the ture Li NH-& Crossi 33 Quarter ende 31-Mar-21 Audited 9,269,72 7,955.591 1,333,81 1,123.01	Jakin Elacy on triely served Officer at Bree Network Schwals Joyce Vin Krugs Kaling Kaling Schwals Internet Control (Control Control (Control (Control)) (Control (Control)) (Control (Control)) (Control) (Co	of the workshall and the comparison of the workshall and the comparison of the compa	nak Gedonfdy) Mess For Linfore Tess No. 307 In 31 Generation Contraction Brahn egd. Off.: Brah Standation Itans me from operations inses in hoffne excep- al items	Randowski standowski standow Standowski standowski stan	Un- si. No. 1 2 3 4
(ar) uso sool and ited e 30, th except Year e 31.Mit 16,281 15,791 490 411 8	ten, India and Carabasese and consummer and consummer for Towne Prolein mited mited mited India Jun (Rs. In Lak d 2,030.78 2,030.71 65.07 50.163 (436.53)	nayproceedings af her take, code in the follow of the follow Mary, O Scherr In Alexana Differ For IRI, H ture Li NH-8 Crossis 33 Quarter ende 31.Mar-21 Audited 9,289,72 7,955,91 1,233,81 1,123,01 210,80	Abb Daos, or tray, and the scheme of the sch	of the works, and the experimentation Ad- Methy Representation Ad- works (PANA) 98, Phano IV, Place: Jaipur maputra House, Ad- CIN : LSS204D 6 Financial Rese Ionsi (net) Ional Rems and Tax	Inder Gestünstein Tess Na 307 In 31 Tess Na 307 In 31 ered Office III-1 22-Sept-2021 Brahn egd. Off Brahn Iars Inter an operat mes from operat mess i) before except al filems i) before tax	Random Contraction Contractico	si. No. 1 2 3 4 5
(ar) (ar) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	hen, holia, instructions expressions and consumeration and consumeration and the second and consumeration and the second and the second second second second second mited and second second second second second second (Re: In Lak d. 30 June 20 Reviewed 2,003 78 1,965.71 50.1 60 (436.63) (436.63)	rayproceedings affective, costs information of the second Mary O. Schern Mary O. Schern NH-R. Crossi 33 Quarter Edited 31-Mar-21 Audited 9-289-72, 7,955.91 1,333.81 1,123.01 270.80 239.08	able Dave, or truly served Officer all the served Officer all the source of the source of of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source	of the workshall and the segment of the workshall and the second second owner (Hol No 98, Property V Places: Jaryor maputra lanses, A CIN : L55204D or Financial Ress ions (net) lional items and tax owner for the year	Inder Gestandardy Terselve Alor Terselve Alor Terselve Terselve Alor Terselve Terselve Alor Terselve Terselve Alor Terselve	Radiated Particu Total Incor Total Experiment Profit/(loss Total Com	Un- si. No. 1 2 3 4
(alar upu) upu o,D and ited ited e 30, th except year e 31,Mi Audi 16,279 49 49 41 8	hen, holio mart persona sees and consumeration and consumeration of the the second second and the second second second mited and second second and and second and and second and and and and and and and and and and	The proceedings of the processing of the process	Abb B.box, or Bridy merol Officer all Bridge Market School School School School School Market Marke	of the workshall and the segment of the workshall and the second second owner (Hol No 98, Property V Places: Jaryor maputra lanses, A CIN : L55204D or Financial Ress ions (net) lional items and tax owner for the year	Inder Gestünstein Tesska 347 In 31 Tesska 347 In 347 Tesska 347 In 347 Tesska 34	Resolution Accord Accord Date: Resolution Particu Total Incor Total Expe Profit/(loss Exceptions Profit/(loss Total Com Particu Profit/(loss Total Com Particu Profit/(loss Total Com Particu Profit/(loss	si. No. 1 2 3 4 5
(alar) tipu: tipu: and and and and tied Year of 31.M Aun 16,289 49 41 15,79 49 2,90 41 8 3 2,90	hen, holia, instructions expressions and consumeration and consumeration and the second and consumeration and the second and the second second second second second mited and second second second second second second (Re: In Lak d. 30 June 20 Reviewed 2,003 78 1,965.71 50.1 60 (436.63) (436.63)	rayproceedings affective, costs information of the second Mary O. Schern Mary O. Schern NH-R. Crossi 33 Quarter Edited 31-Mar-21 Audited 9-289-72, 7,955.91 1,333.81 1,123.01 270.80 239.08	able Dave, or truly served Officer all the served Officer all the source of the source of of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source	of the workshall and the segment of the workshall and the second second owner (Hol No 98, Property V Places: Jaryor maputra lanses, A CIN : L55204D or Financial Ress ions (net) lional items and tax owner for the year	naki Gadina (14) Marsen For Leither Trassica (20) That Marsen For Leither 22-Sept-2021 Brahn egd Off - Brah Standalon Iars me from operat noses 1) hafore excep al lems pediore fax prehensive Inc. (publy share cal 8.)	Radiated Particu Total Incor Total Experiment Profit/(loss Total Com	\$1. No. 1 2 3 4 5

some in the notice within 50 days from the date of the said notices. The berrowers destinat account stated inter in a ereby given to the borrowersUsuarantics and the public in general that the undersigned has taken possession of the intolow in associated opereits conference on the number section (1) (4) of the said that the date in the solid halo one of the solid halo and the solid halo and the public in general that the solid halo and be the solid halo and the solid halo and the public in general that the solid halo be to research as set. The borrowers / Guarantics in particular and the public in general is here with the opporty and any dashings with the poperty will be subject to the charge of the **Central Bank Of India** the amount and interest therein. the amount and meres thereon.
 T

Stepar (U.Y.)
 Forutable Mongage of Resciential Land situated at Kinaera No. 30115 /21 0.4 2021
 Forutable Mongage of Resciential Land situated at Kinaera No. 30115 /21 0.4 2021
 Rev.
 Rev.

Lasman Singh, Narh Pelaka Rasa, Soni-Anazi Pulapa Rani, Kashya Yito Sh. Shigan La Kashyao, Hito Go, Pinat Enciseo, Girat Roda, Kashour, Date U.S. Nagar U.K.) 21/173, Gassanden M. Garyo Bind, Bio Bi, Najor Maringh, Daga, Kashyao, Date U.S. Nagar U.K.) 21/173, Cassander M. Garyo Bind, Bio Bi, Najor Maringh, Daga, Kashyao, Date U.S. Nagar U.K.) 2014 2014 2014 Authorised Officer



Vences the under signed heiring the Authorised Chiffor of Bank of Banda under the Sacuritation of teconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers onlinered under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers emand notice, to the following borrowersiguarations to repay the amount mentioned in the notice, with interest within 00 days from the date of receiption of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the below mentioned horrowers and he public in general, that the underriginged has taken possession of the property described herein below in varciuse of powers conferred on himher under section 13(4) of the said cit read with rule 8 of the said rule on the he borrower and the section section 13(4) of the said cit read with rule 8 of the said rule on the he borrower.

E puone, in guinese conferred on him/her under section 1:3(4) or the section control of the section of the



remain the same, as already notified to the concerned Romowers. In case of any clarifica the Interested persons may contact the concerned Branch office of our client. Kohli & Sobti Advocates, A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024 Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthoolgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461. PUBLIC NOTICE General public is hereby informed that use the organia unsubsite chromostances, the proposed Public Audion (of jelapod unamenta- HNP aucountal by our client MA. Multitud Finance List schedule in 22 de 3 AM September 2021 his September 2021 Kohll & Sobtl Advocates, A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024 Note: Customers can release their plodged ornaments before the scheduled a date, against payment of dues of our client. Customer can also o Email ID: auclondelhi@muthoolgroup.com or Call at 7834686464, 799445240 PUBLIC NOTICE lotice is hereby given and Equity St Notice is hereby given that certificates for the undermentioned Equity Sh of the companies mentioned herein have been lost and holder of the said e shares has applied to the company for issue of dupicate share certificates Folio No and name: P00104 Ramesh Chander Patel Name of Company Berosil Renewables Limited Borosil Ltd

PUBLIC NOTICE General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, proposed Public Auction (of pledged ormaments - NPA accounts) by our client Mis. Mult Finance Lid, schedule for 23rd. & 27th September 2021 has been postponed and is re-scheduled for 13th & 14th October 2021. The place and time of Public Auction s

Regd. Office 1101, Crescenzo, G-Block, Opp. MCA Club, Band Kurla Complex, Bandra, (East), Mumbai, Maharashi
 Product Source
 Source
 2000

 New of Shares
 2000
 2000

 Conflictate No.
 0.00087140.11 to .00020188
 1.00090

 The of Shares
 2000
 2000

 Conflictate No.
 0.00087140.11 to .00020188
 1.002900

 The Number of Shares
 0.00087140.11 to .0002018
 1.002900

 The Number of Shares
 0.00087140.11 to .0002018
 1.002900

 The Number of Shares
 0.00087140.11 to .0002018
 1.002900

 The Number of Shares
 0.00187140.11 to .0018
 Number of the shares

 Deblecking of the nodes after which no construct the Number of the shares
 Number of the shares

 Deblecking of the nodes after which no construct the Number of the shares
 Number of the shares

 Deblecking of the nodes after which no construct the Number of the shares
 Number of the shares
 FORM No. INC-28 [Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Change of Registered Office of HCENTIVE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED from "the National Capital Territory of Delhi" to the "State of Telangana" tom "he National Capital Territory of Dahl" the "State of Telengana" Before the Central Government, Horbite Residenal Director, Northern Residen In he matter of sub-section (-) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of solar uside (3) of the Companies (horbite) companies (horbite), 2014 AD Internation (Horbite) TECHOLOGO (MORA PRIVILE LIMITED haring intergrademic office at1302; Vilvan Vihar, Lajast Naga-V, Neu Delh, Delh-110024, pda. CRNU741400L2009/FTC195869

Registered office address: 13/82, Vikram Vihar, Lajpat Nagar IV, New Delhi, Delhi 110024 India

For and on behalf o For and on behavior hCentive Technology India Private Limited Gd/-Manish Garg

Director DIN: 05189496

Place : New Delhi Date : 22.09.2021

UPPER INDIA STEEL MANUFACTURING & ENGINEERING COMPANY LIMITED CN: U271047819611-LC002397 REGISTERIC OFICE: CHANGRI HOUSTRIAL FOCAL POINT. SHERPUR KALAN, LUDHANA, PULJAB 141010 Telephone: 010-403555, fimal secretarial/gupperridasteel com

NOTICE TO EQUITY SHARESTCAIN BUT STATEMENTS AND A STATEME

Intervation of the provision of section 124 (6) and other applicable provision of the Comparison 64, 2013 (¹) then act) and interest applicable provision of the Comparison 64, 2013 (¹) then act) and invester and planta and the section 64, 2013 (¹) the section 124 (6) and other applicable provision of the act and EFF interval (¹) the section 124 (6) and the third risks, 2013 (CFF TMas) as assumediate. This work is nearing the theory instance of the act and EFF interval (¹) the section which remains and all underlying shares in respect of which divident the landsmith of automotivity along with unaid dividend. The compary has already set the communication to all the concerned starteritoties with hare too claimed any dividend during last 7 years Le. Itom intrancial year 2011 to 2012 commands at the users valuate advances. Accordingly shares held by the concerned starteritoties as per the above mentioned provisions are liable to the transferred to has tackcount of the Automity.

Authority: The concerned shareholder (s) hoteling shares in physical form and whoes shares are liable. To be transferred to the IEFF authority may note that upon transfer of shares to IEFF authority the original shares certaincate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and the deemed non-negotiable. In case of shares held in Demark Form to the edent of shares notice to be transferred shalt stand debited from the shareholders account. Shareholders may also note that both the unclaimed dividend and corresponding chares, I any, can be claimed from the IEFF authority including all the benefits account on such hares, I any, can be claimed from the IEFF authority program and sending the physical cocy of the form along with the required suppring documents specified in the said from IEFF-5 on the RTA for verification of your claims. or any queries on the aforesaid subject the shareholders are requested to contact the company or company's Registrar and share transfer agent with a enuest diving necessary details (i e Folio No. DP-ID & client ID no. (if any)

Company: Imp Company: LIMPR NULA STEEL MANUFACTURIA STEEL MANUFACTURIA E AND Registered Office: DHANDARI INDUSTRUL FOCAL POINT. SHERPUR KALAN, LUDHANA, PUNAB PB 141010 E-mail: socretaried/gupgerindlasteet.com Phone No. : 0161-4611055, 4003055, 0306101533	Registrar & Share Transfer Agent: Skyline Irrancal Services Physital Limade, Unit: UPPER NIDA STEEL MANUFACTURING & ENGINEERING COMPAYV LIMITED D-1532A, 11 Flore: Ohla Industrial Aria, Phase-1, New Delhi- 110 020. Email: pareent@adylinet.com Investor@adylinet.com Phone: 011-20612062
	R INDIA STEEL MANUFACTURING NGINEERING COMPANY LIMITED Vishakha Malhotra Company Secretary

The solid Borrowsre full to make primer to DTL HFL as a dense to way assess under Section 13(4) of the solid Act, and the anotherable kulles, entirely at the rosks, costs and nonsequences of the Borrowsres. For, Intrive cetals lastes control to Authorised Office are **Branch OTHCe**. *Peri* No. 30:00: Looe Groun Plox, Plain Stheij Marg, Hojdgeth Road, Beakle Jaguar Showroom, Moli Negar, Nem Dahi / Or **Branch OTFIce** - A: 1CL A: 1D, 2ath foro; holds Sec15, Molas, Soutam Budh Negar. 201301. / Or **Corporate OTFIce** : ITIL: Tower, Pick No. 55: Use groups and the source of the source o Place: DELHI / NOIDA Date: 23-09-2021 Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) financialerp.ep.m.in

(Prospect No. 789017)
 (Prospect No. 78017)
 (Prospect No. 78017)
 (Prospect No. 78017)
 (Prospect No. 78217)
 (Prospect No. 7

The Ballist Device of the Sector Digit Transand Sector Nutrices of our rest. (10 GDY, kineli Sanjar, Harpeta (Prospect, Nr. 2216) (Day 6, 2016) (Day 7, 2



New Delhi

8

Pla Dat

 Some Nuccio Thirly Ford (01/h)
 Table Loo District description
 Table
 Table Loo District description
 T Date: 23.09.2021; Place: Lucknow

4 जनसत्ता, 23 सितंबर, 2021	
11 जेन्वजेन्व	कार्यालय असि
	जप रं-गेल-ase.region2jaipur@yuke
दिमंत्र रहे. ४ दिगांकः २१.०९.२०२१	र-गम-ase.vogion3jaipux(ijyake अमोक:- अमुझ-॥/अप/2021-22/995
हिंचित सां, 4 विशेष २,196,2021, असिय सा, 1, स्टरंग, / प्रेशी / पृत्री / प्रत्यु / प्रत्यु / असिय सा, असिय सा, स्टरंग, / प्रति / प्रत्यु / प्रत्यु / प्रत्यु / प्रत्यु / प्रत्यु में के प्रति के प्रत्यु के प्रत्य के जित्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के जित्य के प्रत्य के प्रत्य के जित्य के प्रत्य के जित्य के प्रत्य के जित्य के जित्य के प्रत्य के जित्य के प्रत्य के जित्य के प्रत्य	धनावन के प्रन्तपाल मारोदर को ओर थे जि संस्टर्न केन्द्रार तोक नगण विश्वार देवा र प्रतिन्या द्वारा निविदाएँ आमंदिन की ज
रेलटेल के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आने पाले रेलये	http://oproa.mjacthan.gov.in 97 70100
दशना गर आइगा आधारत ानावमा ानगराना गाली (वीएसएस) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण,	1 PHE21-2
भीशाणिण, भौजूदा धीएसएस इन्छा के साथ टीवेश्वान, संचालन एवं जन्दरक्षण"।	
ाईआरईपीएस ई-निविदा सूचना सं	
जो_मर्ट्याय्य_129मन्, 14भाषः 30.07.2021 भिवित्रा तं. तेतहेत/जोही/पूथे/एमस्यु/2020	DIPR/C#310/2021
पुरात स्वयंत्र संस्थित व्याप्ति स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र तिथित त. रेतरेट/आंटी/पुर्व/एषपपु/2021 /वीएसएस/1294 दिनांड 30.05.2021) को वापिस स्वा जा रहा है। एक नवा राशेथित निविदा	एच.एस.सी.सी एच
रतामेज RGIL_ER_21-22_1234A, बिनांक 1.09.2021 डिं-निगिदा सं रेलटेल/ओटी/पक्षे	एन.एस.सी.सी [HSCC]
लावज RGL, ER 2142, 1294, विकास 109,2021 (ई-नीविंग सं करदेवर, अंग्रेटी/पूछे एवरप्/2021-22/वीएतएत/1284ए दिनांग 88,2021) के प्राप्त में अपदोठ विव्या गया है। सीदताउओं से निवेदन है कि वे संसोधित निविद्या राधीओ दिनीक : 21,08,2021 (युद्धिप्रन-4) के	A Miniratna Co.
संद्रवदा) के राज न जनशाख किया नवा है। लीदाताओं से निवेदन है कि वे संसोधित निविदा	पनसीतीयी की ओर ये पननीसीय
नसार सभी प्रामाणिकताएँ जमा करें	एनसीडीमी की ओर से एनबीसीस मोड पर "टर्नकी आयार" पर टिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, संस्था अन्य सुहायक कार्यो" के लिए वा
गामी परिशिष्ट/शुद्धिपत जेनल रेजटेल ग्साइट पर ही अपलोड किये जाएंगे।	माड पर टनका आयार पर टिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, संस्था अन्य सहायक कार्यों'' के लिए वा मानदंडों को परा करने वाले योग्य
Action and Ground Land Autor 1	ाहजाइन, ानमाण, आप्राल, सरसा आत्म सरायक कार्यों'' के लिए वा एपएससीसी /एसईएस /बीरसाए पूर्चला अर्वाध 21 भाइ, निविध 1 करने की ऑसिन सिथि - 14.10.20 विस्तात एनआईटी ई-निविध पी www.becolid.co.in त्यस सिपि
दक्षिण रेलवे	पूर्णता अवधिः २१ माह, निविवाः
ई-निविदा सचना	विस्तृत एनआईटी ई-निविदा पो
भंडार शाखा, एस. रेल	www.hecoltd.co.in तथा सीपीप तो उसे केवल कचित वेबसाइटों प
तिरुचिरापल्ली मंडल	
ई-निविदा सं. 95215453 तय 28.10.2021 को	🔘 भूर्वोक्लर रे
रि, मं. सामग्री प्रबंधक, भंखर शाखा, एस. रेल,	माह अक
રુષિરાપલ્લી દ્વારા આईઆરડ્કીપેસ્સ પોર્ટલ कે	सभी संभावित केताओं को ऑन
ध्यम से निम्न भंडारों की आपूर्ति के लिये खुली विचा आगंजित है।	समी संभावित कंताओं को ऑन लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है ई—नीलामी तिथियाँ
षिद्ध सं.: 95215453 तिथि 14.9.2021- मात्र	12, 20 & 30 अयद्वर 2021
) 5000 मी, 2) 1500 मी 3) 1500 मी, 4)	7, 19 & 28 জবতুৰং 2021 13, 22 & 29 জবতুৰং 2021
00 मी., 5) 2250 मी. 6) 1500 मी.	7. 18 & 28 अक्टूबर 2021 8. 21 & 29 अक्टूबर 2021
ावरणः केवल पीवीसी इंस्युलेटेड आर्मर्ड, ानरक्रीन्ड, भूमिगत रेलवे सिग्नलिंग कॉपर-19	8. 21 & 29 अंक्टूबर 2021 जनमनी का मकार
लरझान्छ, - गूमगत - रतव - सन्तालन - वानर- 19 तिर x 1.5 वर्ग एमएम आरडीएसओ विनिदेशन सं.	सामग्री का प्रकार:- स्क्रॅप रे लोकोगोटिव, टर्निंग, बोर्रिंग, फे
ाईआरएसः एस-63/2014 (रेव-4) के अनुसार	
षिदा की तथ तिथिः 28.10.2021 (14:30 वजे)	नीलामी केंट्रलाग, प्रक्रिया एवं नि यह सूचना पूर्वात्तर रेलने की न संकर्ता है।
हित स्थल: तिस्रचिरापल्ली जेवसन भिनः निनरणी के लिगे नेन पोर्डल	सकता हे । मुजायि ∕ एस=52
ww.ireps.gov.in>ETender>view	यात्री सुविधा सम्बन्धित वि
enders. देखें।	
गगा थगान रहे कि केवल आईआतईगीएस गोर्डल	(कम्पनीज (नियम
न्माध्यम से जमा की गई ऑनलाइन कोदेशन ही वीकार की जायेगी तथा प्रस्ताव डिजीटल रूप में	जीओसीएएसएपी इण्डिया
स्ताश्वरित होनी चाहिये।	" राष्ट्रीय राजधानी
वरि मंडल सामग्री प्रंबधक	केन्दीय सरकार
(तिरुचिरापल्ली जंवशन)	कम्पनीज अधिनियम, 2013 की के नियम 30 के छप-नियम (5
llow us on : 📝 twitter.com/@GMSRailway	
कॉर्म सं. अर्ह्यूनसी28	खीओतीएएतएमी इण्डिया देव-
रंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार) कंपनी के पंजीकृत कार्वालय को एक राज्य से दूसरे ज्य में बदलने के लिए सनाबार पत्र में प्रकाशित होने	णिशका पंजीकृत कार्यालय . ह दिल्ली -110031, इण्डिया में हि
वाला विज्ञायन	CIN: U72900DL2019FTC3578
क्षेत्रीय निर्देशक के समग्र, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली वनी अधिनियम 2013 की घारा 13 की उप-घारा (4) और कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के	कम्पनीज अधिनियम, 2013,की हे कि गाचिकाकत्ती कम्पनी की
मनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और रूपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के	कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसे
उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में राष्ट्रा	हेतु केन्दीय सरकार को आवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑफ दिल
सर्थ अवेनी प्लोबल इंजीनिवर्षिय सॉल्युशंस प्राइवेट मिटेक जिसक पंजीकृत कार्वालय 412, चौथी गण्डिल, हिए विकिटंग-1, जिला जॉट, जनकपूरी, नई	हित कम्पनी के पंजीकृत कार्याः
ांडीए बिकिटंग1, फिला केंद्र, जनकपुरी, नई ल्ली110088 के मानलें में वाधिकाकर्या	निवेशक शिकायत प्रपत्र में एमस
कत मेत, नई दिल्ली (हिंदी समावार पत्र) दिनांक	विरोध के समाधित शपथ पत्र द्व माननीय क्षेत्रीय निदेशक, ललरी
8.05.2021 में पहले विज्ञापन का हवाला देते हुए, इस ठाशन के माध्यम से सामान्य जनता को सुचित किया	सीजीओ कामालेक्स, नई रिवली
ता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यातन को "चप्ट्रीय जवानी क्षेत्र दिल्ली से रोलंगाना राज्य में स्थानाप्तरित	प्रसतुत करे, साथ में उसकी एक की भी प्रेषित करे।
रणे के प्रधान बनाने हेतु कांगनी अधिनियम, 2013 की सा 13 के जन्तनंत बुधवार, 26 मई, 2021 को आयोजित	पंजीकृत कायोलय : डाऊस नव
राजी - 1500 के नागते में	110031, इपिस्सा
रतान क अनुकूल, कह सरकार क सकर कचना का रखा बहि निवसायली में परिवर्तन करने की याचिका बनुर किंगा जाना प्रस्तानित हैं।	डीओ सीएए सएमी :
ल्यून अच्या जाना प्रस्ताागत है। दि खनित विवलत हित जंगनी के पंजीकृत कार्यालय में	
त्वावित परिवर्तन से प्रमानित होने की संभावना है तो इ निवेशक फिलावत पॉर्म दाकित करने वा जो प्रमापित-24	
टेंस (www.mca.cov.m) पर विद्यस्ति कर सकता है था। त राजना के प्रकारन की प्राईम्थ से जीवड दिनों में जंगर	रष्यान : नई विल्ली तिथि : 22.09.2021
त्रीय निदेशक के घते बी-2 विंग, 2 पत्नोर, पर्यायरण का सीधीओ परिवर नई दिल्ली-11080% को अपने	-
त की प्रकृति और विरोध के कारण बताते हुए एक प्रयत्व द्वारा अपनी आपरिष्यों क्षेत्रे ज्याना संगीलन	Bra Read. Off.: B
तुत करना जाने। इस्तातन हो । (तालिव परिवर्त से प्रथमित होने की लोगुल प्रार्थात्व में (तालिव परिवर्त से प्रथमित होने की लागुल्सी की रिकेस क्रिस्टान देखा के प्रथमित की लागुल्सी रहे ता क्रम्सालस करना पर सिर्दाल कर एकता है। पहुल्क के स्वार की ने प्रथमित के स्वार प्रार्थ ने देशकर की प्रार्थ ने ने प्रति में के संदर प्रोरा ने देशकर की प्रती ने-2 किए 2 प्रतोर, प्रयत्वाप प्रार्थ ने के प्रार्थ की प्रती हिंग के लागुल साती हुए एक का द्वारा के स्वी जाति की सीट किर्मा के सात प्रार्थ ने का द्वारा के स्वी जाति अधिक कार्यात्व का प्रति की स्वार का द्वारा के स्वी जातिक की सीटी किर्म के सात प्रार्थ ने की सीटी की स्वार का द्वारा की स्वार्थ जातिक की सीटी की सात	Regd. Off.: I

बिल इंजीमियरिंग सॉल्पूसंस आइनेट पंत्रीकृत कार्यालग 412, चीभी मंजिल, —1. जिला कोट जनकार्या नर्य whet the market offer from हरता/-दामादर अवेला निदेशक DIN: 06566201 रचानः नई फिल्ली विकि २२ का अपन सिम्भावली ट्रांसपोर्ट कॅरिवर्स

तथा तथा सम्भावली ट्रांसपोर्ट कैरियर्स प्राइसेट लिभिटेड के मागले में, विराज पंजीतता नागॉलल प्लॉट से. 50/10, गली ने. 1, गडोदिया तोड, नर्झ बरली, आनद परंत, की दुल्ली, मध्य बिल्ली-110005, भारत पर है, के मामले में

। दशरत - 110005, पासा पा है, के मामाने में ... सार्वपास्ताक (प्रदारा नवस्यामान्म करे पूर्विक किला नाता है कि ता करप्रसा नाम्या की धार्वनिराय, 2019 की गांग (15(4) के आर्वन केटर सारका के सारक आरोड्य प्रवाह करने का प्रान्तपा नामाना के सारक प्रवाह करने का प्रान्तपा नामाना के सारकों '' ... (उस प्रदेश कर प्रान्त की हिस्समें क्रान्स क्रा कि राजे प्रवास के प्रान्त के सारकों की हरत्यों '' ... (उस प्रदेश कर प्रान्त के सारकों की हरत्यों '' ... का रहेव के सारकों के सारकों के सार ने सारकों का सारकों के सारकों के सारकों का सारक में सारकों का सारकों के सारकों सारकों सारकों सारकों सारकों के सारका सारकों के सारकार सारकों सारका सारका सारकों के सारकों के सारकों के सारकों के सारकों के सारकों के सारक सारकों के सारका सारकों के सारकों के सारकों के सारकों के सारकों के सारकों सारकों सारकों के सारकों के सारकों के सारकों के सारकों के सारकों करणनी के संगण सापन में संखोधन की मुस्टि की सींग की गची है। कम्पनी के गंजीकृत कार्यालय के प्रस्ताधित स्थानस्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभाषित होता है तो वह व्यक्ति एक अपथ पत्र जिसमें उनके तित है ते खुट व्यक्ते एक स्वाप्य पर्शे किया उन्हे कि साध करती करती किया काला जीलांदित ते के साथ करती करती के किया जीलांदित ते के साथ करती के साथ के दिस्त हिती के तीपा उन्होंने के सुद्धुर्भ साथ के दिस्त दिसी तिंग जीनरायाण अल्पोर्च्य भव्यू सौर्गाओं जीलांसेल्य साई स्ट्रान्सि-110032 मों पर वीजी जीलांसेल्य साई स्ट्रान्सि-110032 मों पर वीजि सालिकिंग प्रतिहान करवाली के प्रे जे क्रेस्तिलिंग प्रतिहान करवाली के जे

श्रे पाल मिर मेच्ची निहारिका रानी, के पाल सिंद क्रिकेली निवरिष्ठ सनी, (पॉप्सिड र में 816737)) की संबेध उपलय, सुपकी कलरत घरेष, मुप्रकेड कहदर (प्ररिपेश्व र में 989597)) की निहरू प्रकार में की निहरू प्रकार में की निहरू में 989597) आयेदक के लिए तथा उनकी और से सिम्भावली ट्रांसपोर्ट कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट सं. 50/10, वली नं. 1, बजोदिया बेढ, वुई बुाती, आगन्द पर्संत, नई दिल्ली, गध्य गई बागी, आगव पर्वत, गई दिल्ली, भच्य पिटली 110003, भारत डोंआइंटेप । (05190119) तिदशक टी-5, मकता ने. 102, सिर्विटेक, तमग्रस्व ग्रीन, सेकटर-7, वैझाली, गाजियाबाद, उत्तर ग्रेवेस-2000 तिथि : २१ सितम्बर, २०२१ स्थान : हापुढ

www.readwhere.com

रेक्त मुख्य अभियन्ता, जन रुवा. अ पुर क्षेत्र-द्वितीय, गांधी नगर, जयपुर पुरुष के भौतर भूगतान करें। वेष्णे परतावित प्रतिशृष्टि इच्छ ब्रेनेज হত্য:-(পশীখ পঁশীখন উলিপৈল বুক্তম কৰিবলা বনজ্যমে অমিবাহিকা বিজ্ঞা বাজ্যন মইন-চিন্নীব, বায়্য रा प्राथात गरा. रीमनी विज्ञाना देवी ग्रॉम्पोक्ट पे. १०७१२२१) एरासीसी (इंडिया) लिगिटेड (addition) (बीव्रिटेड की अवस्ती) $\begin{array}{c} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ ते 15.00 खोगे ttp://www.tenderwizand.in/HSCC, एप्परससीसी येवसाइट पर उजरबस होंगे, इस क्रमावन का शुद्धिपण, यदि कोट होगा, प्रेरा किया जाएगा और प्रकाशित नहीं किया जाएगा। मुख्य मरावायंकर, नहीं दिल्सी की ओर से कृते एनडीसॉंगरी, नहीं दिल्सी की ओर से सेवा में, नीलामी सूचना सं. 10/202 ूबर 2021 का ई—नीलामी कार्यक्रम लाइन पब्लिक आक्शन के द्वारा रही लामग्रियों के बिक्री में भा अधीनस्थ लॉट संपर्क फोन न उपमुसाप्र / डिपो / गोरखपुर प्रमुसाप्र / डिपो / इण्जातमगर वर्मसाप्र / लखनक रामवाग्र / लखनक anrailways.gov.in पर भी देखा प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक/गोरखपु त हेत मो नं 09 पर एस जिफावत हतुमा न १०७७८८८६५६५६ पर एसएमएस तो में डीतूरी / सिस्पोट न सिर्थे कार्म संस्था आईएनसी-26 मन) नियमन. 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] टेक्नोलॉजीज प्राईवेट सिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय को क्षेत्र ऑफ दिल्ली" से "देलंगाना राज्य" में बदलना के समक्ष, माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्बनीज (नियमन) नियमन, 2014) के क्लॉज (९) के नामले में va नोलॉजीज बाईपेट लिमिटेड के मामले में इक्स गण 13, स्ट्रीट गण 11, डिसीथ मंजिल, गीस कालोमी, नई 5105 स मध रेथत है। 863यापिकाकर्ता कम्पनी 13. रटीट न॰ 11. द्वितीय मजिल, गीता कालोनी, नई दिल्ली **इण्डिया टेवनोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड** की ओर से उनके लिए राजी माहेरवर्श DIN: 06801507 स्थान : नई पिल्ली शिथि . 22.09.202 hmaputra Infrastructure Limited ssing). New Delhi-110 037 ne 30, 2021 Quarter ended Particulars Year er 30. Jun. 21 30-100-20 Reviewed Audited Reviewed Audited 2,809.34 2,654.94 124.40 (5.73) 130.13 130.19 2,901.84 0.45 0.45 9,289.72 7,955.91 Total income from operations (net 2,030.78 1,965.71 16.288.85 15.790.31 Total Expenses Profit/(loss) before exci Exceptional items Profit/(loss) before tax 1,333.81 1.123.01 210.80 239.08 498.54 411.85 86.69 35.11 65.07 501.60 (436.53) Total Comprehensive Income Paid- up Equity share capital a) Basic (Ks.) b) Diluted (Rs.) (436.60) 2,901.84 239.08 2,901.84 0.82 0.82 2,901.84 (1.50) (1.50) 0.12 Raktim Acharjee Whole Time Director Din : 06722166 Date : 22.09.2021 Place : New Delhi मांग सूचना पठेन निर्णय परित्वक्षीत्रों के प्रांभुशिकरण एवं युवसिंगाः । उन्हा निष्पाल्डों के निष्पः 5 के साथ पठित उन्हा अविनिक्त ति (द. (दर्श्वाय्रांश्वार प्रवास प्रवास) (पूर्व में दीराव उन्होज अंकेर्ड बंग सुध्या के प्रवा क्या व्याप्त के देव की तियों में एक का मुत्र व्याह्या व्याप्यस्तों के दिस्ति स्वीत प्रवान के लिये प्रवासित प्रतिभूषि का विवाल रहा प्रवस है। भाग पू प्रांगिष्ट्री दिन (कार्डन) विस्ताराले, 2022 (सात्र विस्ताकले) के किस्त 5(1) श्रीशुप्रे कि प्रतापेत कॉलिस्फ, 2022 (सात्र वॉलिस्फ) भें बाता (22) के प्रारा (21) के दोलंग प्रांवर प्रतिकों ना कार्यन कर दोड़ा र वार्रपार्ट्सपार तें राहसीय संवस्त्रीय कि) के प्रांत्रिका अधिकारी ने उन्तर वॉलिस्म भों बाता 3 लिंडने बांच सुरादा ही) जे नीवांन यो प्रांत्रण करोता का दिसें पित का स्तात है कि सब तुम्हाना की जिंब ने सुप्रान करीं क्रिंत इन्छ आई के स्तात के तार्यम है कि सब तुम्हान की जिंब ने सुप्रान करीं क्रिंत इन्छ आई के स्वार्थ के तार्य हो ब्राजन को दरस्थारा के स्वार्थन करीं की अंत का स्ताय में के स्वार्थन वार्य गुरातान कर। वद्यम्पारका, माग गुच्च व प्रहणसारको गाल्डारो पक माम जी विषय कुमार, की मलराय मांझी, जीवनी में देवी (जॉरपेस्ट नं, 027702) সাঁণ ক্ষমা টিয়ি হৰ্ব ক प्रतिभूति वरित्तम्बति (अपल) सम्पति का सभा निल्ला में, 15/2 (13) कुल 19 क माध्य गौना दिए श्री चडुल, भ्रीमनी गुन्नी देनी, श्री सोहनयीर 20 सिंग, 2021, स. 11,75,65% - (सम्बद्धा सम्रा स. जी प्रजार गय) 12000, 10वां तस, एरिसा पाम 675 निर्मित एरिया), मिन्सन रूफ, खसरा ब, एसर्स्ने, पानिजन्त्राय 201017, प्रजन प (प्रॉएनिय २. ७७७...., अंग चिने पर सिंह, श्रीमती दया रानी, श्रीमती मुझि देवी (प्रॉएनेयर १. 645776) 20 गिन., 2021: २. 25,94,526/ (२ चोद्यानचे सजार पांच यी अटवाईस मात्र बहेरा, ख.ने, 1 एसट/91, भांगर, आरण्ल गुरी, नि यरुव येग्रईटी स्टोस, ऑमती अंत्र भाषण्याल, अंद्रियेचर अत्रराजल, दल्ला, भारत सम्पति का राणी भाग तथा हिल्साः सम्पति माप ऽद 20 सित. 2021: रू. 16.82.850/- (रू. जवापी तजार आउ ही गजार गान) अगरवाल, शी ब्रवावर श्रीयती ऊमलेश अगरवा अगरवाल (परिपेक्ट में: 84/874) भा बचावर अत्ररवाल, स्लेश अगरवाल, श्री रि भाईछ, जाग भंगेल मेगगपुर, परण्णा कार्य्य नगर, नोगडा, विन-३०१३०४, उत्ता प्रदेश, भार तः स्वार्थी का प्रार्थे स्वतः का सिरका उमा का, केट सार्थर, ती, किर सार्थ का अभिकार के, बाद उस पर्व कर, जाने का, का सार्थ की दिन्या, सार्थ की प्रार्थ के किर किर की सार्थ का सार्थ की दिन्या, सार्थ की प्रार्थ के किर की सार्थ के किर का सार्थ की सार्थ का सार्थ का सार्थ का सार्थक का सार्थ के अभिकार की किर सार्थी का सार्थक का सार्थक का सार्थ के सार्थक की सार्थ का सार्थक का सार्थक का सार्थक का सार्थ का सार्थक का सार्थ का सार्थक का सार्थक का सार्थक का सार्थक का सार्थक का सार्थ का सार्थक का सार का सार्थक का सार्थक का सार का सार का सार्थक का सार क (पार्थ्यश्रेष्ट २, ४६.४७४) श्री जन्दुम्बार मुख, सीवनी मीज, श्री सुमित्र (पॉर्ट्योवन में ४४१०८० एवं 20 फिस, 2021- मॉस्टोकर में, 941040, 6,29,681- (8, 10: पाला उन्मतीस काल फार फ़स्तानी मात्र), फॉस्टेकर से 04104, 8, 55832 (4, पराप 6,444 आठ सी पेथी-(मार्क) 20 सित, 2021: 8, 28,28,505/- (8, आहत साम अट्सईम हजार मांन यी जी मात्र) 941044) श्री मनीश कुमार, श्रीमनी चनेवा गिया, श्री आनंद कुमार (प्रॉरमेक्ट नं. 8240

भो सिंह, २०२१: २. १४,३७२/- (२. अद्वीस इत्यर तीन सी सचानये मात्र)

21 सिंह: 2021, म. १,४८,१२१८/- (? इम्रार आह सौ अन्द्रहाईस मात्र)

माग सूचना क साथ बतन स्थान के संस्थाप के स्वाप्त के आ) की पास 13(2) के तौराति उसने निष् प्रार्थिनयों का प्रयोग करने हुए आईथाईए सेन प्रयुपेत ही...के अधिपूरत अधिपार को जानी की कई संबंधित कीन सूल्या(अधे) काना सरकारणों की किई किन साल की बीतभूति हिन प्रयत्तेन अभिनिय देव त्राव्य अधिनियम की वाम वाईश्वन्त्रता श्वान्त्रन्ता (भूत् १९(२) के अंत्रवीन क्रांग कूल्यन गमान की विशितक आगे के 1 जुमचारकी, मांग सुचना थ ने का विवास दया प्रकार है। का विवरण मन्मति का तथी भाग तथा दिएसा स्तौर ते. ई डी.वी.25. स्लॉल डी. एरिया वाय 350 वर्ष फीट नमुन्भग जुटुयन, नितना करतीं, दौक जेव नोकी थाती के लिक्ट, लपकुर 302020 गमल्जान, भारत 5, 7,16,991/- () जी राजापते प्राय) where we can also be a similar to the second secon

्रतान्त्री संदिद्धा साहान्यस्था संहतान्त्र साल सालग्रे सेल स्वितन सीति सामग्रे हितीय तेल यास्य टीवर मोजन सीहान्यूर रोड देहरात्म्, उस

प्रकाशन नोटिस ओ0प्0 संख्या 56 / 2021 में एवं दिवालियापन अधिनियम, 1983 के लेक्कन 19 के सब-लेक्कन (4) सपतिन जय नियम (20) इ.सम्ब–समय पर संशोधित ऋग पसुसी ट्रिब्युनस (प्रेसीजर) नियम 1983 के अधीन उपस्थित होने

केनरा बेक (सिंग्रिकेट बेक) बनाम श्रीमती अंजू एवं अन्य हुमार पुत्र मंगत कश्यप निवासी: मकान नंत ४६, जोरंगाबाद रानीपुर (तंतराखण्ड)।

बावेदक बैंक ने आपके विरुद्ध 🐺 82.67.944.44

ाली कि प्राप्तरेशन सर्विता जारेडर के के आपके निष्कृत सुद्ध 25 3444 / – जे सर्वु 15 हर्ग 1640 165 35 25 25 विकेश निक्षा है। कि पिन कि भागने भर वादाविकता ने का स स्वृत्ं यहां विकेश नाम अधीनिकता, 1953 की पांच प्रारंत 164 की प्रारंतित कार्य निष्कृत माने का पांच है। के स्वर्गनी कि द्वारा 164 के साम 164 के प्रारंत में प्रारंत के साम माने प्रारंत कि स्वर्गनीय कि स्वार्थ 164 के साम 164 के प्रारंत के साम माने के साम माने प्रारंत कि स्वार्गनीय कि स्वार्थ 164 के साम 164 के प्रारंत के साम माने के साम माने का साम माने कि स्वार्थ 164 के साम 164 के प्रारंत के साम माने के साम माने के साम माने के साम माने को साम माने कि साम 164 के साम 164 के साम 164 के साम 164 के साम माने के साम 164 के साम माने के साम माने के साम 164 आहम ती तरिव से 20 मन्त्र पर आगवत हादेव मा कानूनी महासा के साधम से सर कप, साम्प्र-का बराव या वा प्रमुक करों। प्रतिक में कि मिसीक दिला एर सामा पर टिवान्स में आसी वापीसी वी सुक ती (में 30 कलग पर सुनवाई और निर्मव आपकी अपूर्णसीनी में कि आसेगा। देनक पर सिताबर, 2021 के दिन असिकरन की युद्ध एने में इस्तावर से जाने। दिनक पर सिताबर, 2021 के दिन असिकरन की युद्ध एने में इस्तावर के जाने। दिनक पर सिताबर, 2021 के दिन असिकरन की युद्ध एने में इस्तावर के जाने। स्वार्य प्रतिक्राय, 2021 के दिन असिकरन की युद्ध एने से इस्तावर से जाने।

फार्म संख्या आईएनसी-26 [कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] इमलेगटिव टेवनोलॉजी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड में पंथीकृत कर्वालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑफ विल्ली" हो "तेलंगाना राज्य" में मदलगा

प्रभुग प्राच्या पत्र आग म्परता प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त भाग भाग भाग भाग मां भाग मां भाग के के साम माननीय सेवीग निदेशक, उत्तरी सेव अ अधिनियम 2013 को साम 13 की अप-मात (भा (भा पंक भगोज (नियमन) नियमन 2014 म 30 के उस-नियम (5) के क्सींज (१) के मामले में पर्य

सीजीजां काम्पलेंगस, नहीं दिल्ली।न10003 दिल्ली को इस सुराना प्रकाशन के गौरह दिनों के सांसतुत करे, साथ में उसकी एक प्रतिलिपि गांत्रिकाकतों कम्पनी के निम्न नर्जित पंजीवृत का को भी प्रेमित करें। पंजीकत कार्यालय : 13%2, विक्रम विहार, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली, दिल्ली-110024, इण्डि

एचरोनटिव टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राईवेट शिणिटेड की ओर से उनके सि म-गीश -

प्रतिभृति हि 13(12) गं काइनांस कि सूचना(व्ये सूचना को ज्रूपधारको

श्री लखविन्दर श्रीयती आज्ञा न (प्रॉरपेक्ट न, ह

(प्रारम्पक्ट न, 82815) श्री मनोज कुमार जम्म श्रीमती चजेल्वरी सम्म,

श्री जगोद उमास, श्री जोगिचर सिंह, श्रीमती शेला, वलराज सिंह (जॉलोफ्ट मं. १२३०३३, १०३

श्री हतील कुमार चर्चाना, श्रीमती असूरी देवी, श्रीमती लक्ष्मी, श्री मनोन कुमार (प्रारमेल्ट ने, 869634, 9337

१८२६८७) स्त्री राजीव, श्रीगती मगता, (गरिमोवर में 181442)

मायति का रसी भाग तथा दिय्याः कर के माथ भन लल सम्पत्ति सं. 121, मान 30 वर्षे माईस, खलं, 222421 जू सारीं कारती नगर, याथ मुद्देके साथ, जाहरस न दिल्ली-110031, दिल्ली, मारत सम्पत्ति का सनी कार स्वया हिस्साः सम्पत्ति सं. की-100 स्वर्ण्यात्र का स्वर्ण नगरा ने अभि-100

भारतीय पनिभूति और जिनिमय बोर्ड ("मेवी") परिमत से सेवी, एवक्र), एक्रजरी, दीप्राय, सीम्रोड क्रेडरा सी. 2016/11 लिबि 10 अवट्रवर, 2016 के अनुपालन में निवस प्राप्ताय ("एक्रिटर व्यव्यक्रिय") की सावित्रीक घोषणा का सबार में, वीपीसी टेक्नोलॉर्डी लिपिटेन

ा स्वत्यप्रत्य में सार्वत्य प्रत्य के सार्वत्य प्रति के सार्वत्य के सार्वत के सार क सार्व के सार कर के सार क्रा क सार्व के सारक के सारक के सार्व के सारक का सारक का सारक के सारक के सारक के सारक का सारक का सारक के सारक के सारक के सारक के सारक का सारक के सारक के सारक के सारक का सारक का सारक के सारक के सारक के सारक का सारक का सारक का सारक के सारक के सारक का सारक का सारक का सारक का सारक के सारक का स का सारक के सारक का सारक के सारक के सारक

पदनामित पार्ट-DPIN:0004737 तेथिः २। सितम्बर, २०२।

যুকা ৰঁক 👩 UCO BANK

सार्थने कार्यात्रवर स्वन्तु . आवार्य विषयेरल, सामने प्रमुख होन आपदेनेक्ट्र प्रेजेजुना , सरह किस्टर, (सान) दिल्ली-1007 उपार्टनेक्ट्र प्रेजेजुना, सरह किसर, (सान) दिल्ली-1007 उपार्टनेक्ट्र प्रेजेजुना, सरह किसर, (सान) दिल्ली-1007 (प्रोजेनी कि (जिंका) के प्रेजेजिय कर के पिकाल () के राज आवित सीक्षिय आस्तियों के गाँत वाज प्रतिपृत्ति कि (प्रत्वेग) कि (आवित्य अस्तिय क्रां के प्रेजेजिय क्रां के प्रमुख विवय 3 के लाव पढ़े जाने वाज अतिपृत्ति कि (प्रत्वेग) कि (अर्थ ताज के लाव पढ़े जाने वाज अत्रिपृत्ति कि (प्रत्वेग) किया, 2002 के स्वाय 3 के लाव पढ़े जाने वाज अत्रिपृति कि (प्रत्वेग) किया, 2016 विवय 3 के लाव पढ़े जाने वाज अत्रुप्ति हित (प्रत्वेग) किया, 2017 के जावपाय करते हु एव आवेहसाक्षा के नाम चुचान दिन्ता कर 2106, 2021 जारी की की, नियास इंग्रा उज्युप्तेन्द्र नी गांची पूचार एवं भीपती गीदेनी देवी दोनों निवासी पर्वट नं 16 की, दूसरा तल, जैकीए एक्काईजी, गोकेंट-जी, ट्राका, नई दिल्लो-1007, जो जूपना में प्रविचयित वाण एवं मे नाम) त्राप स्व राठ उज्युप्त मे के ता प्रेज के त्राय त्वाय (वे मा ज्य) के एस सर राठा उठ्य के बाज प्रत्या एक के लाम जल v.9.76.326.19 (नी लाख अफरार हजार तीने सी मीस रूपये उन्नरिय पिये मात्र) और दंस पर 31.10.2021 से ब्याज एवं शुळ्क के साख सबस सुख्या की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर खुकाने के तिए कहा गया था। फर्जारा/ गारंटर के इस पारी को पुराने ने असफल रहने के कारण, कर्जारत तथा आस जलता को एतद्वारा सुरीत किया जाता है कि आपोल्साक्षरों ने प्रतिप्ति कि एकदांने। नियम 2002 के नियम 6 के साथ पर जायों राज कीफरी कार्जीसियम की यादा 1.6 की जप-साथ, कि ७ के उत्तरी प्रदास हातिरायों का उपयोग करते हुए नीने वर्णित सम्पत्ति का करजा दिनाक 22.09.2021 को ते तिया है कर्जदारा साखात किया जाता है कि सम्पत्ति के साथ कियी प्रकार का लेन-देन न करे और सम्पत्ति का कोई मी तत्वनेत्र क.9.78.2021 8) ती लोग हा अठलरार इजार दीना में सी सी करणे सम्पात क राखा गरुवा गरुवा लग-दन ग कर आर सम्पात के कास तेनते के 9,78,322.19 (नी ताखा आर अउतरार इयात हती न सी बीस रूपये उपनीस पैसे मात्र) सुरवा की सारीख से का दिनों के नीतर और एस पर 31.03.2021 से व्याज एत शुरुक के साथ मूको बैक, मगूर विद्यर, दिल्ली साखा के ज़मारके गुम्बतन के अधीन होगा।

राज्या कशार क गुरावान क अवान शामा। इडलियों / मारंटरों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए राजकर समय के संबंध में अधिनियम के अनुन्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्राप्त्रानों की क्षेत्र काकर्षित किया जाता है।

अनजगुरूर (ठ) ए प्रायमांगा था जार जायगरा थिया गया है। <u>अखल सम्पति का विवरणा</u> फ्लैट नम्बर 16 सी, दूसरा तत, पॉकेंट सी, फेज़-1, टाईंप-6, सेक्टर-03, द्वारका, नई दिल्ली-110075.

स्थानः नई दिल्ली निथिः २२.०९.२०२१

COMMANDING OFFICER HQWAC(U) AF SUBROTO PARK, NEW DELHI-10 HOWAC(U) AF SUBROTO PARK, NEW DELHI-10 "Bids are invited for immediate sale of Two CNG buses DL1VA6923 and DL1VA6925 Tata-407. 18-1 seater both 2008 Model on 'As and Where' basis. Those who want to bid may come and collect the bid form and the same be submitted in a seated envelope by 1500 Hrs on 28 Sap 21. Forms and other details are vanilable in 'Welfare Bus Service Office', Contact no. 256877640/6 Exth 5685/7686 Mb 945033558". आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड शाखा का पताः आईढीबीआई बॅंक लिमिटेड. १९. भूतल. सूर्य किरण ? कंपी बार्ग, नई दिरली 110001 (T) IDBI BANK ल. सूर्व किरण भवन रवर्ण आगुषणों की नीलांगी के लिए सार्वजनिक सूचना ्या स्वयं प्रदेश के अवस्थ र ने व्याप के गांविणी प्रथा प्रथा पर पाप के पर पाप के प्रत्या का रविणीयके तिर जाते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है । नीलामी दोपहर 12%00 क्ये के बाद केजी -विश्वभीजित की जाएगी । गिरवी सोने के प्राप्त में ईप्रमबी आरसित आगुषणों सकल ७. में मूल्य का विवरण प्रचल ७. में ठपये में जपारकर्ता का नाम और पता खाता गंबर 1 0011671100001274 राजेल सिंह studd 2 5.80 17181/-23000/ े मानान मानवाग राज के सालत र के आतंत र के आ स्वर के आतंत र के आतं शिष्ट नीतानी बैंक द्वारा निर्मारित किंके के निश्मों और शतों के अधीन होगी. जिसकी एक प्रति <u>१५७८२८८२</u>१ से <u>३३८७२२८७२</u> सक केंगी मांच शाखा के नीटरा बॉर्ड में प्रदर्शित को जाएगी और इस्ट्रेफ घ्या इसे संदर्शित कर सकते हैं। नीतानी में मांग लेने वासे बोलीदाता को बिक्री के पूर्वीक निर्म्मों और शर्ता की पूरी जानकारी होना समझा जाएगा। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 FORD DATE हस्ता. / – प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक, केजी मार्ग शाखा स्थानः कोली मार्थ दिनांक: 22.09.2021

DIN:051894

मांग सचना

(14.1) के अंगेर प्रात सोनवों का प्रोज करते हर आर्थजारेक्सल के स्वातंत कि. (आर्टजारेक्स स्वप्यस्त) (से में सिंध वन्त्रीयान कार्यम सहाता है। में अभिन्म अधिकारों का अधिकार में बाद (15.1) के अंग्रेस के प्राप्ता के संस्थापने में उन्हें से में संसिध प्रार्थ्य के दो मोंता की प्राय्व मोनक अन्द्री में प्रायंत्रक के क्रिक्वी में उन्हर का प्राय्व करता के क्रियों क प्रार्थ्य के प्रे की संस्थान के अंग्रे के प्रायं के अध्याकों के क्राइ के प्रार्थ के प्राप्ता के स्वात्र के क्रा प्रार्थ के दो मींता के क्रिक्व के क्राइ के प्रायं के क्राइ के स्वीत्र के प्रारंध के प्राय्व के क्राइ के क्राइ के क्राइ के स्वार प्रायं के स्वात्र क्राइ के अन्द्र के स्वार्थ का क्रिक्व के क्राइ के क्राइ के क्राइ के दो त्यां के स्वार्थ के प्रायंत के क्राइ के क्राइ के क्राइ के क्राइ का के							
ज्राणधारको/गारन्टरी का गान	माग सूचना तिथि २च गरिव	प्रातभूति पारसम्पति (अचल सम्पति) का विभरण					
श्री अभिनय कुमार, श्रीमजी अनुराध्य (प्रस्पिंक्ट में, 789017)	अट्वईस हजार पन्द्रह मान)	सम्पनि का सभी खान तथा हिस्साः अपार्ट, नें, अमूल्या सन न- 1108, 11वां तस, गिम्पान रूप, एरिया गाग 599 वर्ष फॉल, ससरा बे. 5/4/51, राजनगर एक्टरें, गाविंगावाद, पिन कोठ: 201010, उत्तर प्रदेश					
श्री सचिन बाहव. श्रीमती रापा खादव (पॉरमेक्ट वे 781164)	16 सित. 2021. रु. 22:29:994/- (रु. चाईस लाख उन्फ्रीस रुवार नी सी जीतील माण)	सम्पति का सभी भाग तथा हिरसाः पसीट ने. मु.जी1 (सम्प्राग्रांगे) उनन्द समुद्र उन्हरी पुरात, का के अभिवस्ट के विवा ग्रांगि समय ८८० वर्ष फीट, प्लॉट ने सी-८९, प्रीग्रनग्रक जेरीसे , पोपस, सारियावाट, सन्वियावाट, पिन कोठ-201001. ३.%					
श्री दिनेस कुमार मह, श्रीण्डी परांती देखे पह, (प्रस्पिक्ट ने. 720080)	। 6 लिय. 2021, फ. 17,37,911/− (फ. खप्राफ पाख सैंतील हनार भी भी रचाड़ मान)	सम्बद्धि का सभी भाग सभा डिस्साः स्ट्रैंट में, 1201, भाग 1545 भर्ग बहैड, 12भां तस, स्ट्रॉक के 2, ईस्त्रे पिस्टेम 1, म्टॉड में, 08, सेफ. 1, बेटर नोएडा, 3.प्र201303					
श्री पतान कुम्मार, श्रीमती वचीता देवी (प्रस्थिकट नं. 722276)	18 सिंग, 2021, स. 19,78,741/- (स. जन्मीस लाख अंडहवर हजार सात सी इकतालिस बाज)	सम्पनि का सभी भाग तथा हिस्सः प्रथम तल, प्रसेंग् सं थी- 29/21, माप 1139 वर्ग फोट, टोसीआई सिटी, कुरुव्हली, सोनीफर, हरियाणा					

2000 र 1400 х 1400 x 14000 x 14000 x 1400 रिप्रकी में दिशत है। परण्पनि कर सभी भाग तथा हिरका एस. में. 253, परिप्रा माग 75 यग माईस, खसर न. 80°17 जी पसंद न. 1 थर 2 पर निर्मित 5 तथा थान पुराई, ए-पर्याठ, यावा कोतोनी के नाम से विदित आवासे, सिस्सी, भारत में रिथन है।

18 सिन. 2021, प्रसिनंड ने. 86/0634, क. 26,69,632/-(स. वेस्ट्राइंस साम्र उन्तरार हजार छ सी बलेख मात्र), ऑरपेक्ट में, 953/46, क. 415471/- (क. चर साख 1958) स्तार पारा ही इन्डरना मात्र), ऑरपेक्ट ने. 025827, त. 1,14,227/- (क. एक लाख नीवड डवार दी सी सनाइंस an rma 2021, अस्मरद म. 814427, क. 9,88,2757- (क) सम्मति का स नी लाख अदारी इन्सर वो जी प्रसुदन पाव), प्रॉरोन्ट ने, जल, परिया घ 918886, 5. 2,71,923/- (के दो लाख इक्तरास तजार जी सी वैईस मात्र) Ren. 2021, 364965 4, 814421, 5, 9,88,2757-पति का सभी भाग तथा हिस्साः एव. नं. ई-589-वी, , एरिया माथ 13.65 वर्ग मी,, प्रताप विहार, पानिवाबाव

ा से दिन कर के प्राप्त हैं। से दिन कर के प्राप्त के प्राप्त कर के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त कर के प्राप्त के प्रा का प्राप्त प्राप्त का प्राप्त के प

रूम्ता./- प्राव्यकृत आधकाय आईआईएफएल होम फाइनास लि. के लिवे

तनावग्रस्त आरित रिकवरी शाखा. व्यन तत. 23, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ती– ग्रेन: 25419177, 25412977 ई–मेत: 181,15199

भा कामा, काक्स हमर के काकामहरूक पूर्वि-पत्र देनांक 25.08.2021 को इस समाचार पत्र को विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ आम जनना को साधित किया जाता है। छिगे विज्ञापन इ-नालामा सुमना क प्रका आम जनता को सुवित किया जाता है वि कर्णचार : नैसर सिरीन पुरुष्ठस विनिदेव, (क स. 1), नेस्ट जेन एससपोद्स प्रा. वि. (क.स. 3) और मेसर्स फलकाशिया स्टाइंग्रल (क.स. 4 की सम्पति की ई-नीतामी दिनांक 27.09. 2021 को होनी थी, उपरांतन खात की सम्पति की प्रस्तावित ई-नीतामी को बैंक द्वारा स्थागित / निरस्त किया जाता है। दिनांकः 22.09.2027, 8401/- प्राधिकृत वधिकारी, स्थान : नई दिल्ली **पारतीय स्टेट कै**

🚯 SBI भारतीय स्टेट बेंक

तनानयस्व भार्मित किन्वरी पासा, प्रथम इत. २३, नवजपढ़ रोड, वई दिल्सी-कोन 2541917, 25419877 ई-मेल क्रीडॉ18 शुद्धि-पत्र दिनांक 22.09.2021 को इस समाचार एथे विवाधन ई-नीलामी सरवना के

ातनाक 2020 अठार का दुस सांसाय पंच म अंभ सामा को सुनित किया जाता है। अंग जनारा को सुनित किया जाता है। की राजविसों की ई-र्नाडाणी निताक 24:00 राठवा को होनी और प्रायतेल सामी की समाति की प्रसातित ई-र्नाडाणों की कडाता स्वार्थित / मिस्सत किया काता है। केय प्रतिसार 2:10 स्वारा स्वार्थ / स्वार्था स्वार्थ राजवार हो। स्वार्था स्वार्थ स्वार्थ किया हुआ क्या कि कडाता स्वार्थ : स्वी दिस्सी स्वार्थ स्वीक्ष स्वार्थ के किया की कार्य स्वार्थ : स्वी दिस्सी स्वार्थ कर के कार्य कार्य के कार्य

हस्ता./ गौरव गुप्र श्री साँईनाथ शिक्षण प्रशिक्षण

संस्थान ईशीपुर, महारानी पश्चिम सुलतान (७०७०) में श्वमितानोषित योजनाश्त

(७७८८०) में रचायेपायांचय खाजमात्मा :-प्राचार्य / विमागाध्यक्ष-01 पर बीएम्२० एवत्मान--१७ पद | रोगस्ता म देवतमान--युक्कोठसीत तथा रा निश्चनीवद्यालय एव एन०सी0टी0द्वैं0 मानकानुसार | इक्कुक अन्यथी विवास मिथि के 97 विरुषों के भीर महाचिद्यालय ये पत्ते पर सम्पर्थ <u>वर्ष</u> 1 प्रवन्ध

मो0-95659309

COURT NOTICE

(Ulo 5 Rule 20 CPC) In The Court Of Sh Karan Aggarwal Civil Judge (Junior Division), Ludhiana hu Sharma Vs.

Gain Chand Shama ONR NO: PBLD02-009824-2019 Next date: 15-11-2021

Sut Por Declaration Publication Issued To: Gain Chand Sham Address : R/o E-45, Backside Opposite L.G. Shop, Nehru Ground, Near Anadour G. Shop, Nehru Ground, Near Ana utia, N.I.T. Faridabad above titled case, the defenda sociedent (s) could not be served red that detendant(s) respondent (d appear in person or throug) (sel on 15-11-2021 at 10.00 a.m. for gon to: https://highcourtch

किनान के कि Canara Bank - 4 हिन्दान के कि Canara Bank - 4 हिन्दान का कि व्यक्त राष्ट्रीय कार्य्यत, सी-2, प्रथम तर, महरादमी मेरि, देवियं क्यांतन, माणिय परि

TIMPORTANT dvertising copy, it is not possible to v ontants. The Indian Express (P) Limited be held responsible for such contents, nor bas or damage incurred as a re reneactions with companies, associat

्र उ.प्र. पाबर ट्रांरामिशन उ.प्र. गुन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड अल्पकालीन निविदा सूचना जिन्दाक निपिदा निम्नलिखित कार्यां हेतु दो भागों में अलग-अलग ई-टेण्डर योग्य फर्मी से निम्नलित विवरणानुसार धरोहर राशि व निविदा लागत सहित आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा से संबंधित समस्त अभिलेख एजम् शर्तें ई-टेण्डर पोर्टल www.etender.up. nic.in पर दिनाक 29.09.2021 से 08.10.2021 को 17.00 बजे तक डाउनलोड किये जा सकेंगे। यदि निविदा खुलने का दिवस अवकाश का दिवस है तो निविदा अगले कार्य दिवस में पर्व निर्धारित समय पर खोली जायेगी। अधीहरताक्षरकर्ता को यह अधिकार सरक्षित होगा कि वे किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार/ निरस्त कर सकते हैं। क्र.सं.: 1 निविदा संख्याः E-T-09/21-22 कार्य का संक्षिप्त विवरणः हंडिया एवं झूंसी से खागा तक 'बे' सामग्री के कैरेज का कार्य। धरोहर राशिः 1000/- निविदा अपलोड करने क दिनांक- कब से 29.09.2021 कब तक 08.10.2021, निविदा खलने का दिनांक 09.10.2021 ''राष्ट्रहित में बिजर्ल बचायें''। हस्ता./- अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रेषण खण्ड-फतेहपर। ° प्रत्रांक 1255 वि.प.ख.(फ.)/टेन्डर नोटिस दिनांक

22.09.2021